

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 6, 2017/चैत्र 16, 1939	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 7
No. 139]	DELHI, THURSDAY, APRIL 6, 2017/CHAITRA 16, 1939	[N.C.T.D. No. 7

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

(दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2017

फा. सं. डीपीसीसी / (3)(3)(8-7) / प्रशा.-14 / 570.—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (3क) के साथ पठित धारा 2 के खंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के पूर्वानुमोदन से एतद्वारा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति में **वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर—I (वैज्ञानिक 'सी')** के पद हेतु भर्ती पद्धति से संबंधित निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.**—(i) इन नियमों को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति **वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर— I (वैज्ञानिक 'सी')** भर्ती विनियम, 2017 कहा जाये।
(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न पे बैंड और ग्रेड पे/ वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि.**—उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- अयोग्यताएं.**—कोई भी व्यक्ति,
(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है;
या
(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

उपबंध है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :- जहां सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।
6. **बचाव** :- इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिक तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर-I (वैज्ञानिक 'सी')
2.	पदों की संख्या	:	* 3 (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण	:	वर्ग 'क'
4.	पे बैंड, ग्रेड पे/वेतनमान	:	पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये जमा ग्रेड पे-6600/-रुपए
5.	क्या चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	40 वर्ष तक (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 / अ0पि0व0 / शारीरिक अक्षमता इत्यादि के मामले में तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) टिप्पण:- आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी, जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि हो (लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है)
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि* के साथ विज्ञान में डॉक्टरेट सहित प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव * विशेष विषय के बारे में अपेक्षित स्नातकोत्तर उपाधि का निर्णय प्रत्येक अवसर पर रिक्ति भरने के अनुसार अध्यक्ष, दिल्ली प्रदूषण समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु: नहीं शैक्षणिक योग्यता: किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि, अथवा विज्ञान में डॉक्टरेट

9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	सीधी भर्ती वालों के लिये दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	(i) 75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (ii) 25 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाना है	:	<p>पदोन्नति:—</p> <p>पे बैंड-3, 15600-39100/-रुपये में ग्रेड पे 5400/-रुपये में पाँच वर्षों की नियमित सेवा वाले वैज्ञानिक-‘बी’।</p> <p>नोट:—कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/ पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।</p> <p>प्रतिनियुक्ति</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/ स्वायत्त निकाय/सांघिक निकाय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के निम्नलिखित अधिकारी:—</p> <p>क. (1) नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) पे बैंड-3 15600-39,100रु0, ग्रेड पे 5400/-रुपये सहित पदों में कम से कम पाँच वर्ष की नियमित सेवा वाले अथवा समकक्ष तथा (ख) विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले तथा प्रदूषण नियंत्रण या संबंधित विषय में कम से कम आठ वर्षों का अनुभव रखने वाले।</p> <p>टिप्पण : केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>प्रतिनियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी शृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।</p>
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	<p>विभागीय पदोन्नति समिति</p> <p>1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि.</p> <p style="text-align: right;">—अध्यक्ष</p>

		2. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उनका नामिती —सदस्य 3. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि. —सदस्य 4. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य विभागीय चयन समिति :- 1 अध्यक्ष, दि.प्र.नि.समि. —अध्यक्ष 2. अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो विशेषज्ञ —सदस्य 3. सदस्य सचिव, सीपीसीबी या उसका नामिती —सदस्य 4. सदस्य सचिव, दि.प्र.नि.समि.— सदस्य 5. रा.रा.क्षे.दि.स. का अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	: लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,

एस. एम. अली, विशेष सचिव (पर्यावरण) एवं सदस्य सचिव

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

(DELHI POLLUTION CONTROL COMMITTEE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2017

No. DPCC/(3)(3)(8-7)/Admn-14/ 570.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 12 read with clause (i) of section 2 of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Chairman, Delhi Pollution Control Committee, with prior approval of Hon'ble Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, hereby makes the following regulations regarding method of recruitment for the post of Senior Scientist Level -I (Scientist 'C') in the Delhi Pollution Control Committee, namely:—

- Short title and commencement.**—(i) These regulations may be called the Delhi Pollution Control Committee, Senior Scientist Level -I (Scientist 'C') Recruitment Regulations, 2017.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.
- Number of posts, classification and pay band and grade pay/scale of pay.**—The number of said posts, their classification and pay band and grade pay/scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- Method of recruitment, age limit qualifications etc.**—The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualifications.**—No person,-
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or;
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,
shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this regulation.

5. **Power to relax.**—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons.
6. **Saving.**—Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/ pay scale	Whether Selection Post or Non-Selection Post
1	2	3	4	5
Senior Scientist Level -I (Scientist 'C')	*3 (2017) * subject to variation dependent on workload	Category 'A'	Pay Band -3 Rs 15600-39100/- plus Grade Pay Rs. 6600	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
6	7	8	9	10
Upto 40 years. (Relaxable in case of SCs/STs/OBCs PH category etc. and government servant as per instructions/orders issued by the Govt. of India from time to time.) Note The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India except the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&k State, Lahaul&Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Island & Lakshadweep]	Doctorate in science with Master degree in Science* with two years experience in the field of pollution control or related field. *The particular discipline in which Master's degree is required shall be decided by the Chairman, Delhi Pollution Control Committee on each occasion a vacancy is filled. •	Age: No Ednl. Qlfn.: Master degree in Science from recognized University/ Institution OR Doctorate in science.	Two years for direct recruits.	(1)75% by promotion failing which by deputation; (2) 25% by deputation failing which by direct recruitment.

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13
<p>Promotion: Scientist 'B' with five years regular service in the Pay Band -3 Rs. 15600-39100/- with Grade Pay of Rs. 5400/-.</p> <p>Note : Where the juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualify/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying /eligibility service.</p> <p>Deputation: Officers of Central/State Government/ Autonomous bodies/Statutory Bodies/PSUs: (a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) having atleast five years of regular service in posts in the Pay Band-3 Rs 15600-39100 with Grade Pay of Rs.5400/- or equivalent; and (b) possessing Master's degree in Science and having atleast eight years of experience in pollution control or related subjects.</p> <p>Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding the appointment in the same or any other Organization/Department of Central Government should ordinarily not exceed three years.</p> <p>The maximum age limit for deputation shall be 56 years on the last date of receipt of applications;.</p> <p>The departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion..</p>	<p>Departmental Promotion Committee:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, DPCC —Chairman. 2. Member Secretary, CPCB or his Nominee —Member 3. Member Secretary, DPCC —Member 4. Representative of SC/ST of GNCTD —Member <p>Departmental Selection Committee:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman, DPCC —Chairman 2. Two experts nominated by the Chairman —Members 3. Member Secretary, CPCB or his nominee —Member 4. Member Secretary, DPCC —Member 5. Representative of SC/ST of GNCTD —Member 	<p>Not applicable.</p>

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
S. M. ALI, Spl. Secy. (Env.)-cum-Member Secy.